



# जीवन शक्ति योजना

मध्य प्रदेश शासन

‘सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न’

सर्वाधिकार सुरक्षित - उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

1. मेरा आधार कार्ड नहीं है कैसे रजिस्टर करूँ?

उत्तर: आप अपने मोबाइल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

2. ओटीपी नहीं आया क्या करूँ?

उत्तर: पुनः ओटीपी भेजे अथवा दूसरा मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। और फिर भी न आये तो कुछ समय वेट कर पुनः कोशिश करिये।

3. आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन करने पर ओटीपी नहीं आ रहा है। क्या करे?

उत्तर: पहले ये चेक करे की आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और वो नंबर आपके पास हो ताकि आप ओटीपी दाल कर रजिस्टर कर पाए।

4. आधार नंबर नहीं पता क्या करे?

उत्तर: यदि आप आधार से रजिस्टर कर रहे हो तो आधार नंबर और मोबाइल उससे लिंक होना अनिवार्य है अन्यथा आधार नंबर डालना अनिवार्य नहीं है।

5. खता संख्या कहा से मिलेगा?

उत्तर: अपने पासबुक क पहले पेज में देखे आपको खता संख्या मिल जाएगा।

6. IFSC कोड कहा से मिलेगा?

उत्तर: अपने पासबुक क पहले पेज में देखे आपका IFSC कोड लिखा होगा।

7. मेरे दो बैंक खाते हैं कौन सा भर सकती हूँ ?

उत्तर: आप दोनों बैंक खातों में से कोई भी भर सकती है जिसमे आप भुगतान राशि प्राप्त करना चाहती है।

8. मुझे कार्य आदेश कैसे मिलेगा ?

उत्तर: आपको ऑनलाइन पंजीकरण फार्म भरना है तत्पश्चात आपको कार्यदेश ऑनलाइन ही लॉगिन करने पर मिलेगा।

9. कार्य आदेश कितना मिल सकता है ?

उत्तर: आपको अपनी मास्क बनाने की मासिक क्षमता बतानी होगी परन्तु कार्यदेश 200 प्रति माह से ज़्यादा नहीं मिल सकता।

10. मुझे भुगतान कब मिलेगा ?

उत्तर: भुगतान के लिए आपको कार्यदेशित मास्को की संख्या की डिलीवरी डिस्ट्रिक्ट सप्लाय ऑफिस में करनी होगी आगे के भुगतान की जानकारी आपको SMS के माध्यम से और लॉगिन करने पर प्राप्त होगी।

11. भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर: भुगतान के लिए आपको कार्यदेशित मास्को की संख्या की डिलीवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में करनी होगी वहा मास्को की क्वालिटी चेक करने क बाद आपको आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में online भुगतान किया जाएगा और SMS के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा।

12. एक माह में कितने बार आर्डर मिल सकता है ?

उत्तर: एक माह में आपको एक से ज़्यादा आर्डर मिल सकते है परन्तु 200 प्रति माह से अधिक आर्डर नहीं मिल सकते।

13. मास्क बनाने के बाद कहाँ जमा करना होगा ?

उत्तर: डिलीवरी स्थानीय नगरीय निकाय ऑफिस में करनी होगी।

14. जमा करने पर कोई पावती दी जाएगी ?

उत्तर: हां आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन पावती दी जाएगी।

15. मास्क जमा करने के कितने दिन बाद भुगतान मिलेगा ? और कैसे मिलेगा ?

उत्तर: मास्को की क्वालिटी चेक करने के बाद आपको आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में online भुगतान किया जाएगा और SMS के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा।

16. क्या इस योजना में पुरुष भाग नहीं ले सकते ?

उत्तर: नहीं

17. मेरा घर ग्रामीण क्षेत्र में आता है। क्या मुझे योजना का लाभ नहीं मिलेगा ?

उत्तर: नहीं यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए है।

**धन्यवाद।**